

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 जून 2015—ज्येष्ठ 25, शक 1937

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2015

फा. क्र. 84 (12)-2015-चार-उप चुनाव-4793.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के उप नियम 11(2) के अनुसरण में 227-गरोठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची सर्वसाधारण के सूचनार्थ निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, प्रभारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

प्रारूप-7 क

[नियम 10 (1) देखिये]

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

227-गरोठ निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये उप चुनाव 2015

क्रम संख्यांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	दल सहबद्धता* (4)	आवटित प्रतीक (5)
----------------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी


1. चन्द्रसिंह सिसौदिया

कोटडा खुर्द,
पोस्ट-खारखेड़ा,
तह.-गरोठ,
जिला-मन्दसौर

भारतीय जनता
पार्टी








कमल


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2.	सुभाष कुमार सोजतिया	प्रदीप सदन, मकान न. 150, कचहरी चौक, भानपुरा जिला-मन्दसौर, म. प्र.	इंडियन नेशनल काँग्रेस		हाथ

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)

-निरंक-

(iii) अन्य अभ्यर्थी

3.	अब्दुल रशीद	ग्राम-भैसोदा, तहसील-भानपुरा, जिला-मन्दसौर	निर्दलीय		अलमारी
4.	देवीलाल धाकड	धाकड मोहल्ला, मु.+पो. लोटखेड़ी, तह. भानपुरा, जि.-मन्दसौर, म. प्र.	निर्दलीय		फलों से युक्त टोकरी
5.	प्रहलादसिंह चौहान	मु. पो.-सातलखेड़ी, तह. भानपुरा, जि.-मन्दसौर, म. प्र.	निर्दलीय		बोतल
6.	बालाराम हाटेला	ग्राम-जमुनिया, तह.-शामगढ, जिला-मंदसौर	निर्दलीय		एअरकंडीसनर
7.	मेहमुद	ग्राम-भैसोदा, तह.-भानपुरा, जि.-मंदसौर	निर्दलीय		ऑटो-रिक्शा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	श्यामलाल मालवीय	खाती मोहल्ला गरोठ, तह. गरोठ, जिला मन्दसौर, म. प्र.	निर्दलीय	 फूलगोभी

स्थान : गरोठ
तारीख : 13-6-2015.

हस्ता./-
(एस. के. भण्डारी)
रिटर्निंग आफिसर,
227-गरोठ.

FORM 7A
[See Rule 10(1)]

Conduct of Elections Rules, 1961



(Statutory Rules and Order)

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Bye Election to the Legislative Assembly from the 227-Garoth Constituency

Sl. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	*Party affiliation	Symbol allotted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)


(i) Candidates of Recognised National and State Political Parties






1	Chandarasingh Sisodiya	Kotda Khurd Post-Kharkheda, Teh.-Garoth, Distt.-Mandsaur.	Bharatiya Janata Party	 Lotus
2	Subhash Kumar Sojatia	Pradeep Sadan House No. 150, Kachari Chowk Bhanpura	Indian National Congress	 Hand

(ii) Candidates of Registered Political Parties (Other than Recognised National and State Political Parties)

-Nil-

(iii) Other Candidates

3	Abdul Rashid	Village-Bhesoda, Teh.-Bhanpura, Distt.-Mandsaur.	Independent	 Almirah
---	--------------	--	-------------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Devilal Dhakad	Dhakad Mohlla, Vil.+PO-Lotkhedi Teh.-Bhanpura.	Independent	 Basket Containing Fruits.
5	Prahladsingh Chouhan	Village+Post-Satakhedi, Teh.-Bhanpura, Distt.-Mandsaur.	Independent	 Bottle
6	Balaram Hatela	Village-Jamuniya, Teh.-Shamgarh, Distt.-Mandsaur.	Independent	 Air Conditioner
7	Mahmud	Village-Bhesoda, Teh.-Bhanpura, Dist.-Mandsaur	Independent	 Auto-Rickshaw
8	Shyamlal Malviya	Khati Mohlla Garoth, Teh.-Garoth, Distt.-Mandsaur M. P.	Independent	 Cauliflower

Place : Garoth
Date : 13-6-2015

Sd./-
(S. K. BHANDARI)
Returning Officer,
227-Garoth.